



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 24.05.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### “मेरी लाइन - कोरोना मुक्त लाइन” अभियान का शुभारंभ



आज दिनांक 24.05.2021 को वामा सारथी के तत्वाधान में पुलिस लाइन खीरी में "मेरी लाइन - कोरोना मुक्त लाइन" अभियान का शुभारंभ किया गया जिसमें पुलिस लाइन में आवासित पुलिस परिवारों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करने के लिए पंपलेट बांटे गए इसके अतिरिक्त निशुल्क मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया।

इस मौके पर वामा सारथी जनपद अध्यक्ष वामा सारथी, पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन, जनपद खीरी, श्रीमती अंशू (पत्नी श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक खीरी) द्वारा पुलिस लाइन में कोविड-19 संक्रमण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं परिवार कल्याण केंद्र में बनाए जा रहे मास्क की गुणवत्ता का भी अध्यक्ष वामा सारथी द्वारा जायजा लिया गया। बताते चलें कि अब तक पुलिस लाइन खीरी में 10,000 से भी ज्यादा मास्क तैयार करके पुलिसकर्मियों एवं पुलिस परिवारों में निशुल्क वितरित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिसार निरीक्षक को प्रतिदिन पुलिस लाइन के आवासीय परिसर एवं कार्यस्थलों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

**थाना गौरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा नेपाल राष्ट्र को ले जायें जा रहे 10 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**



पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गौरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा नेपाल राष्ट्र को जा रहे 02 अभियुक्तों 1. सूरज बाबू राना पुत्र जसरत 2. बृजेश कुमार पुत्र शिंशू नि0गण कजरीया थाना गौरीफन्टा जनपद खीरी को वाहन चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 10 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, 01 अदद मोटरसाईकिल व 1,100 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 25/21 व 26/21 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त पप्पू शर्मा को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त पप्पू शर्मा पुत्र अशरफी शर्मा नि० अलीयापुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 267/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर थाना क्षेत्र में आर्थिक व भौतिक लाभ लेने के लिए वाहन चोरी जैसे अपराध करने वाले 03 अभियुक्तों 1. नसरत पुत्र ऐसान अली नि० घोसिया थाना कोतवाली सदर आदि 03 नफर के विरुद्ध मु०अ०सं० 454/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

## वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 437/21 धारा 147/148/149/427/452/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रेम किशोर गुप्ता उर्फ मोहन पुत्र श्याम किशोर नि0 शिव कॉलोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **62 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **01 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	थाना मैगलगंज	25 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2	थाना ईसानगर	17 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
4	थाना धौरहरा	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	62 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार